

**कटारे, श्री सत्यदेव**  
इंडियन नेशनल कांग्रेस  
निर्वाचन क्षेत्र- अटेर (9)



|                   |   |
|-------------------|---|
| पिता का नाम-      | स्व. श्री जगराम कटारे   |
| जन्म तिथि-        | 15 फरवरी, 1955  |
| जन्म स्थान-       | ग्राम मनेपुरा, जिला-भिण्ड   |
| वैवाहिक स्थिति-   | विवाहित   |
| पत्नी-            | श्रीमती मीरा देवी कटारे   |
| संतान-            | 2 पुत्र , 1 पुत्री  |
| शैक्षणिक योग्यता- | बी.ए., एल-एल.बी.  |
| व्यवसाय-          | कृषि, व्यापार   |
| अभिरुचि-          | धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, संगीत सुनना, तैरना, भ्रमण  |
| स्थायी पता-       | (1) ग्राम मनेपुरा, पो.-सुरपुरा, तह. अटेर, जिला-भिण्ड (म.प्र.) (2) विकास नगर, जगराम नगर, जिला-भिण्ड (म.प्र.) दूरभाष-(07534) 244747<br>मोबाइल-9826083094, 9977303047 ई-मेल-<br>satyadev.katara@mpvidhansabha.nic.in |
| स्थानीय पता-      | (1) बी-11,74 बंगले, भोपाल (म.प्र.) (2) सी-118, भारती निकेतन, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) दूरभाष-(0755) 2588020, 2588021 फ़ैक्स-(0755) 2602484   |

**सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-**

1977 में ग्राम पंचायत कोषण (भिण्ड) के निर्विरोध पंच निर्वाचित. 1978 से भोपाल में श्रमिक आन्दोलन से संबद्ध एवं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के माध्यम से कार्य. मार्च 1978 से नवम्बर 1978 तक मध्यप्रदेश सेवादल के प्रदेश कार्यालय मंत्री. 1981 में भोपाल जिला इंटक कौंसिल के संयुक्त सचिव एवं इंटक युनियनों का सफल संचालन. 1983 से मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य, मार्च, 1983 में विकास केन्द्र भारतीय युवक कांग्रेस के युवा समन्वयक कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर (बिहार) में एक वर्ष रहकर युवा समन्वयक के रूप में कार्य. 1985 में आठवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. 1985-1990 में मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के महामंत्री. 1987-90 में मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल के सचेतक. 1986-90 में भारत-रूस मैत्री संघ मध्यप्रदेश के सचिव. 1988-90 में मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल के सचिव. 1985-88 में मध्यप्रदेश शासन की अनेक विभागीय सलाहकार समितियों के सदस्य. 1986-88 एवं दिसम्बर 1989 से फरवरी 1990 तक मध्यप्रदेश विधिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य. फरवरी 1989 से दिसम्बर 1989 तक उप मंत्री परिवहन एवं जेल विभाग. 1990-92 में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव. 1993 में दसवीं

विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं 14 दिसम्बर, 1993 से राज्य मंत्री गृह विभाग (मुख्यमंत्री से संबद्ध) एवं 28 फरवरी, 1995 से मई 1998 तक मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रहे. वर्ष 1995-96 के उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार से सम्मानित. मध्यप्रदेश राज भाषा प्रचार समिति एवं मानस भवन भोपाल तथा "मंगलम" शिवपुरी के आजीवन सदस्य. 1999 एवं 2004 में भिण्ड-दतिया लोक सभा निर्वाचन में कांग्रेस के प्रत्याशी. वर्ष 2003 से 2008 तक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री. 2003 में बारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. 2004-05, 2005-06 में विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति. वर्ष 2007 में न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर व हांगकांग की यात्रा. वर्ष 2008 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित. वर्ष 2009 व 2013 में म.प्र. कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के सदस्य रहे. वर्ष 2011 से 2013 तक म.प्र. कांग्रेस के महामंत्री व भोपाल लोक सभा के प्रभारी रहे.

सन् 2013 में चौथी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित एवं दिनांक 09 जनवरी, 2014 से 20 अक्टूबर, 2016 तक नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा रहे.

**टिप्पणी** - दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को दिवंगत.